



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.10.2022

**थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा टोटो से चुराये गये कन्ट्रोलर के साथ
वांछित अभियुक्तगण साहिल व जावेद गिरफ्तार किये गये।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूटी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के पर्यवेक्षण में थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु.अ.स. 204/2022 धारा 379 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्तगण 1.साहिल पुत्र असगर अली निवासी जे 17/140- B- 4 अलईपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी 2.जावेद पुत्र कुरबाल निवासी सरैया चौकी के पीछे अमरपुर बटलोहिया थाना जैतपुरा वाराणसी हाल पता बेनीपुर पहडिया थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी को दिनांक 28.10.2022 को समय 17.10 बजे टोटो से चुराये गये कन्ट्रोलर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 26.10.22 की रात वादी मो. जावेद अख्तर पुत्र इनाम नवी निवासी नाथूपुर पोस्ट कटेसर जनपद चन्दौली के टोटो सर्विस सेन्टर से बाहर खड़ी टोटो से अभियुक्तगण उपरोक्त कन्ट्रोलर व बैट्री चोरी कर रहे थे तथा वादी के जागने पर कन्ट्रोलर लेकर भाग गये। दिनांक 27.10.22 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जैतपुरा में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. सौरभ सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.साहिल पुत्र असगर अली निवासी जे 17/140- B- 4 अलईपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र 18 वर्ष।
- 2.जावेद पुत्र कुरबाल निवासी सरैया चौकी के पीछे अमरपुर बटलोहिया थाना जैतपुरा वाराणसी हाल पता बेनीपुर पहडिया थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 सौरभ सिंह थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी
- 2.का0 धीरेन्द्र यादव थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी
- 3.का0 संदीप कुमार थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

